



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1402]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 14, 2007/कार्तिक 23, 1929

No. 1402]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 2007/KARTIKA 23, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2007

का.आ. 1931(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1031(अ), तारीख 26 जून, 2007, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 198.000 कि.मी. से 242.000 कि.मी. (कानपुर-वाराणसी सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 28 जुलाई, 2007 को "अमर उजाला" और "दैनिक जागरण" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 198.00 कि.मी. से 242.00 कि.मी. तक (कानपुर-वाराणसी सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	6		7	8	9
1	इलाहाबाद	सोरांव	बिगहिया	521	निजी	कृषि सिंचित	0.1340	अमयरज सिंह पुत्र नन्द किशोर निवासी ग्राम
				522	निजी	कृषि सिंचित	0.0510	अभिवन सिंह पुत्र नन्द किशोर सिंह निवासी ग्राम
				523	निजी	कृषि सिंचित	0.0456	राम चन्दर पुत्र शिव बहादुर निवासी ग्राम
				524	निजी	कृषि सिंचित	0.0180	मदन मोहन पुत्र शिव बहादुर निवासी ग्राम
				526	निजी	कृषि सिंचित	0.1000	सत्यनाथ प्रसाद, कल्लू, नन्दलाल पुत्रगण भाईनाथ निवासी ग्राम
				527	निजी	कृषि सिंचित	0.0570	मनोज्ञ व दृगलाल पुत्रगण बघील, जयपाल कुमार, राजकुमार, संजय कुमार पुत्रगण भाईनाथ निवासी ग्राम
				485	निजी	कृषि सिंचित	0.0530	राजदा प्रसाद पुत्र पृथ्वी पाल निवासी ग्राम
				486(me)	निजी	कृषि सिंचित	0.1520	राजदा प्रसाद पुत्र पृथ्वी पाल निवासी ग्राम
					निजी	कृषि सिंचित		गुरु दयाल पुत्र बच्चा निवासी ग्राम
				508	निजी	कृषि सिंचित	0.0370	अमयरज सिंह पुत्र नन्द किशोर निवासी ग्राम
				497	निजी	कृषि सिंचित	0.0170	रामलाल, रामराज, राम अभिलाष, राम लखन रामराज व राम अभिलाष पुत्रगण भाईनाथ निवासी ग्राम
				496	निजी	कृषि सिंचित	0.0110	गुरु दयाल पुत्र बच्चा निवासी ग्राम
				505	निजी	कृषि सिंचित	0.0364	कल्लू, रामदुलार, जयपाल पुत्रगण भाईनाथ निवासी ग्राम
				506	निजी	कृषि सिंचित	0.0030	रामलाल, रामराज, राम अभिलाष, राम लखन रामराज व राम अभिलाष पुत्रगण भाईनाथ निवासी ग्राम
				507	निजी	कृषि सिंचित	0.0410	कुल्लू, नरोत्तम, भैया राम, लहुरी पुत्रगण गुरुदेव व नन्की देवी पत्नी सुखराम निवासी ग्राम
				504	निजी	कृषि सिंचित	0.0100	गुरु नन्की पत्नी राम औतार निवासी ग्राम

[फा. सं. 11015/5/2001/भू.अ./डीजीएम/इला.वार्ड.]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th November, 2007

S.O. 1931(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1031(E), dated the 26th June, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.2 on the stretch of land from Km. 198.000 to Km. 242.000 (Kanpur-Varanasi Section) in District Allahabad in the State of Uttar Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Amar Ujala” and “Dainik Jagran”, both dated the 28th July, 2007; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

Schedule

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of the land from km.198.00 to km. 242.00 (Kanpur-Varanasi Section) of National Highway No.2 in the State of Uttar Pradesh

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of the land Owner / Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Allahabad	Soraon	Bighiya	521	Private	Agriculture	0.1340	Abhay Raj Singh s/o Nand Kishor
				522	Private	Agriculture	0.0510	Tribhuan Singh s/o Nand Kishor Singh
				523	Private	Agriculture	0.0456	Ram Chandar s/o Shiv Bahadur Singh
				524	Private	Agriculture	0.0160	Madan Mohan s/o Shiv Bahadur
				526	Private	Agriculture	0.1000	Lalta Prasad, Kailu, Nandlal s/o Bhagawati
				527	Private	Agriculture	0.0570	Mewa Lal, Brij Lal s/o Bachol, Ashok Kumar, Raj Kumar, Sanjay Kumar s/o Panna Lal
				485	Private	Agriculture	0.0530	Sharda Prasad s/o Prithwi Pal
				486	Private	Agriculture	0.1520	Sharda Prasad s/o Prithwi Pal
								Guru Dayal s/o Bachcha
				508	Private	Agriculture	0.0370	Abhay Raj Singh s/o Nand Kishor
				497	Private	Agriculture	0.0170	Ram Lal, Ram Raj, Ram Abhilash, Ram Lakhan, Ram Raj, Ram Abhilash s/o Bhai Lal
				496	Private	Agriculture	0.0110	Guru Dayal s/o Bachcha
				505	Private	Agriculture	0.0384	Kallu, Ram Dular, Jai Pal s/o Ram Das
				506	Private	Agriculture	0.0030	Ram Lal, Ram Raj, Ram Abhilash, Ram Lakhan, Ram Raj, Ram Abhilash s/o Bhai Lal
				507	Private	Agriculture	0.0410	Kullu, Narottam, Bhaiya Ram, Lahuri s/o Sukh Dev, Nanki Devi w/o Sukh Dev.
				504	Private	Agriculture	0.0100	Nanaki w/o Ram Awatar

[F. No. 11015/5/2001/1 AQ/DGM/Alld. Bypass]

PRABHAKAR, Dy. Secy.